

COSCO (INDIA) LIMITED

2/8, Roop Nagar, Delhi - 110007

+91-11-23843000

+91-11-23846000

mail@cosco.in

www.cosco.n

Ref:- CHO/2024-25/BSE Date: 28th August, 2024

To,

The Manager (Listing), Corporate Relationship Department,

BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

> Scrip Code: 530545 Scrip ID: COSCO

Sub: Intimation of publication of newspapers advertisement in respect of 45th Annual General Meeting of the Company.

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

With reference to the above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisement published in following mentioned newspapers on Wednesday 28th, August, 2024 intimating that 45th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30th, 2024 at 12:00 Noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 28th December, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circulars Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, latest by October 7, 2023 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI.

- 1. The Pioneer dated 28.08.2024 (English Daily)
- 2. The Pioneer dated 28.08.2024 (Hindi Daily)

The above notice is also uploaded on the Company's website i.e. www.cosco.in

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

FOR COSCO (INDIA) LIMITE

(Company Secretary & Compliance officer)

SUDHA Digitally signed by SUDHA SINGH Date: 2024.08.28 SINGH 11:43:01 +05'30'

Encl. as above

CIN: L25199DL1980PLC010173

BJP targets 10 cr new members in one month deliver result in 40 minutes

PIONEER NEWS SERVICE

The BJP will launch a fresh membership drive with Prime Minister Narendra Modi scheduled to get the certificate for the renewal of his membership from the party President Jagat Prakash Nadda.

get of enrolling at least 100 million new members across the country except in the election-bound Jammu and Kashmir Harvana, Maharashtra, and Jharkhand. The first phase of the membership drive will go on till September 25 and then a



State Council of Educational

GOVERNMENT OF DELHI

Applications are invited For DPSE

Apply latest by 06.09.2024

Research & Training (S.C.E.R.T.

the second phase on October 1. It will continue till October 15. Party sources said that Sadasyata Abhiyan 2024 will be launched in the presence of Prime Minister Narendra Modi on September 2, in the National Capital. According to BJP leaders, Union Ministers, Chief Ministers and elected

representati I, RAJINDER PAL GAMBHIR SON OF SHRI A.C. GAMBHIR RESIDENT OF Bfrom Sarpanch to 1/537, JANAK PURI ,DELHI - 110058, do parliamenta nereby solemnly Inform That I have lost following property documents pertaining to DDA FLAT NO. 78-B, GROUND FLOOR, POCKET-1, MAYUR VIHAR PHASE-1, DELHI 110091 viz : (a) ossession Intimation letter issued by DDA. (b) NOC for Water and Electricity issued by DDA. I have already filed complaint about the above mentioned lost

rians will spearhead the BJP's nation-wide membership drive starting from September 2, an exercise which will serve as the launch pad of the party's internal polls leading to the election of its new President. National General BJP

Secretary Vinod Tawde, who is also the head of the membership drive, appealed to people to join the party in a big way. "A strong BJP will lead to the making of a 'Viksit Bharat', he said.

ARCHANA JYOTI ■ NEW DELHI

A s Monkeypox increasingly threatens global health, India has taken a significant step forward with the Central s Monkeypox increasingly Drugs Standard Control Organisation's (CDSCO) approving a new indigenously developed RT-PCR testing kit that can deliver results within 40 minutes.

The IMDX Monkeypox Detection RT-PCR Assay, Siemens created

Healthineers, is designed to

MONKEYPOX

detect both clade I and clade II variants of the virus. This advancement marks a

crucial milestone for India's "Make in India" initiative and

is a pivotal addition to the country's arsenal combating the Monkeypox public health emergency. Monkeypox

Detection RT-PCR Assay will be manufactured at our diagnostics molecular manufacturing unit in Vadodara, which has a manufacturing capacity of 1 million reactions per year. The factory is all set to make the kits available," said Siemens

Date: 23.08.2024

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055 inder The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of surity Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers confi 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 25-04-2024, calling upon the Borrower Sh.Surinder Singh Sio. Late Sh.Manjeet Singh Rio. Upper Ground Floor & 3". Floor, Property No.1004, Gali No.9, Khasra No.93, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 also at Sh.Surinder Singh S/o. Late Sh. Manjeet Singh, C/o. Surinder Singh Tour & Travels, DDA Office, Near Metro Station, Manglapuri, Dwarka, Delhi-110045, and calling upon the Mortgagor/Surety Smt. Baljeet Kaur, W/o. Late Sh.Manjeet Singh R/o. Upper Ground Floor & 3". Floor, Property No.1004, Gali No.9, Khasra No.93, Govindpur Kalkaji, New Delhi-110019, also at Smy.Baljeet Kaur W/o. Late Sh.Manjeet Singh, B 331, Sangam Vihar, Shiv Shakti Mandir, Sangam Vihar, Mehrauli, Delhi-110062, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.15,79,196/- (Rupees Fifteen Lakhs Seventy Nine Thousand One Hundred & Ninety Six Only), together with further interest penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time rom the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of

The above mentioned Borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amount solice is hereby given to the above named borrower, mortgagor, surety and the public in general that the Bank has taken **Symbolic Possession** of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security rest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, or this 23" day of August' 2024.

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of Rs.15,79,196/ together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan count from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount.

The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below entioned mortgaged property/Secured Asset

DISCRIPTION OF THE PROPERTY The property under All that part and parcel of the ENTIRE UPPER GROUND FLOOR consideration is Entire & ENTIRE THIRD FLOOR WITH TERRACE RIGHTS OF upper ground floor & PROPERTY BEARING NO.1004, GALI NO.9, AREA before grown as a MEASURING 80 SQ, YDS, OUT OF KHASRA NO.93, SITUATED measuring 80 Sq, Yds. AT GOVINDPURI, KALKAJI, NEW DELHI-110019, Falling Under the Registration of Sub-Registrar-V, Delhi/New Delhi.

(MEENAKSHI VATS) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58

ne No.9013568418,9013568419.

SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED Regd. Off: Pawan Puri, Muradnagar, Distt. Ghaziabad-201206 Uttar Pradesh (INDIA)

CIN: L17100UP2016PLC084473

Email: spaceincubatrics@gmail.com, Website: www.spaceincubatrics.com, Phone: 01232-261288 Notice of AGM: the Members of SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED will

be held on Saturday, September 21, 2024 at 02:30 P.M. at Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (UP), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM dated August 22nd 2024. The Notice of the AGM along with the Explanatory Statemen thereto and the Annual Report for the year ended March 31, 2024 has been separately sent in electronic mode to all those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of AGM have been sent to all other Members who have not registered their email addresses, at their registered addresses, by the permitted mode. The Annual Report and a copy of the Notice of AGM are also available on the website of the Company at www.spaceincubatrics.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com. E-Voting:

The Company has entered into an arrangement with Central Depository Securities Limited ('CDSL") for facilitating remote E-voting services.

In this regard, Members may note that:
(i) Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and regulation 44 of SEBI (LODR) Reg. 2015, the business as set forth in the Notice of AGM may be transacted throughvoting by electronic means. The company is pleased to provide remote E-voting facility to all its Shareholders.

the cut-off date for the purpose of determining shareholders for voting through Remote E-voting and at the venue of AGM is Saturday September 14, 2024 (Cut Off Date). Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the Cut Off Date may eithe cast their votes, electronically through electronic voting system of Centra Depositories Services Limited(CDSL), i.e. https://www.evotingindia.com from a place other than the venue of AGM ("Remote E-voting") or at venue of the AGM through Ballot Paper:

the Remote E-voting shall commence on September 18, 2024 a 10:00 AM (Wednesday) and end on September 20, 2024 at 5:00 PM (Friday). The Remote E-voting facility shall be disabled by CDSL after September 20, 2024 at 5:00 PM (Friday) and no voting shall be allowed beyond the said date and time and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

) any person who has acquired shares and becomes members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut Off date i.e. September 14, 2024 (Saturday) may obtain their user ID and password for e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or CDSL by connecting to the CDSL

or RTA at the following contacts: Tel. No.: 022-23058738 and 22-23058542-43, E-mail ID:

helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com. the facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of AGM:

(vi) a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to cast his vote again in the AGM;

(ii) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut Off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting or voting at venue of the AGM through Ballot Paper. Notice of AGM of the company can be downloaded from the link:

https://www.spaceincubatrics.com/wp-content/uploads/202 NOTICE 8TH-AGM SPACE.pdf

case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members' available under the 'Downloads' section of www.evotingindia.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800225533 or contact Mr. Anand Tirodkar, Mr. Deborshi Choudhury, CDSL, Trade World, 'Phiroze Jeejeebhoy Towers, 17th Floor, Dalal Street, Mumbai - 400001, at the designated e-mail ids: helpdesk evoting@cdslindia.com or telephone no. Tel: (022) 23058615, (022 23058634) Fax: (022) 23002043.

In Compliance of applicable provisions of the Companies Act. 2013 and as a part of the Green Initiative, the Company encourages the Members to provide / update their e-mail address to enable the servicing of notice(s). documents(s)/Annual Report(s) electronically. The request for updation of records for members holding shares in physical mode should be sent to the Company or RTA and to the Depository Participant in case of members

holding shares in dematerialized mode. The AGM will be held at the said venue by strictly adhering to the Socia Distancing Norms and other Safety Protocols including Face Masks, Hand Sanitization etc. as per the latest guidelines / advisories / SOPs issued by

Governments amid COVID 19 pandemic For Space Incubatrics technologies limited

Date: August 27, 2024

Healthcare Private Ltd.

This public notice is hereby given that our client intends to enter into a transaction with (1) Mr Anoop Kumar Arora S/o Sh. Ashok Kumar Arora (2) Mr. Sukhvinder Singh Chadha S/o Sh. Ajit Singh Chadha (3) Mr. Mahesh Chand Goyal S/o Late Sh. Shyamlal Goyal (4) Mr. Ram Naresh Agarwal S/o Lt. Sh. R. L. Agarwal (5) Shree Durga Foundation, a charity 'trust having it's office at 5/19-B, Roop Nagar, Delhi-110007 (6) Ram Naresh Agarwal HUF, a Hindu Undivided Family , through its Karta Ram Naresh Agarwal S/o Lt. Sh. R. L. Agarwal (7) Mrs. Saiba Agarwal W/o Shri Udit Agarwal (8) Legend Marketing Private Limited having its registered office at 5/19-B, Roop Nagar, Delhi-110007 (9) Mr. Udit Agarwal S/o Shri Ram Naresh Agarwal (10) Mr.Sidharth Kumar S/o Shri Prabhu Dayal (11) Mr. Ram Kumar Bhatia S/o Sh. Baldev Raj Bhatia (12) Mr. Naresh Kumar Bhatia S/o Sh. Baldev Raj Bhatia (13) Mr. Surinder Kumar Bhatia S/o Sh. Baldev Raj Bhatia (14) Mrs. Veena Bhatia W/o Surinder Kumar Bhatia (15) Mrs. Sunita Bhatia W/o Ram Kumar Bhatia (16) Mrs. Renu Bhatia W/o Naresh Kumar Bhatia and (17) Black Pepper Hospitality and Events Private Limited, having its registered office at Plot no. 3, LGF, CBD Ground, Shahdara, Delhi-110032(1 to 17 collectively referred to as "Owners") in connection with the acquisition of heir respective shares/units in the commercial building (the "Building," as further delineated in chedule-II) and the corresponding undivided interest in the parcel of land (the "Land," as further elineated in Schedule-I) upon which the Building is erected.

PUBLIC NOTICE

(Land)

All that piece and parcel of land bearing commercial Plot no. 3, situated at Central Business District (East), Shahdara, New Delhi-110032, admeasuring 1998 sq. meters butted and bounded

On the East: Open Space On the West: Road On the South: Plot No.5

SCHEDULE-II

(Building)
uilding shall mean the building built and constructed on the Land i.e. a standalone indepe commercial building comprising of (i) Basement measuring 1033.27 sq. mts. (ii) Ground Floor neasuring 1184.26 sq. mts. (iii) First Floor measuring 1166.08 sq. mts. (iv) Second Floor easuring 1166.08sq. mts. and Third Floor measuring 1145.00 sq. mts. in aggregate dmeasuring 5694.69 sq. mts. i.e., 61,297.64 sq. feet (covered area) and (vi) Terrace above the

and and Building are hereinafter referred to as "Subject Property"

f any person or any legal entity including any Government / Public Department, Bank or Financial stitution, etc., is having or claiming any form of right, title, claim, benefit, demand or interest in the ubject Property or any part thereof, by way of sale, transfer, exchange, assignment, Will, release, elinquishment, decree or order of any Court of Law, encumbrance, mortgage, lease, lien, charge, cense, gift, inheritance, undivided share, possession, easement, trust, bequest, lease, tenancy, sub-tenancy, leave and license, lispendens, easement, options, right of first refusal or pre-emptior encumbrance of whatsoever nature or otherwise howsoever, or under any agreement, deed, ocument, or power of attorney or any objection/s of any manner whatsoever is hereby required to nform the same in writing with notarized/certified true copies of documentary proof in support hereof, to the undersigned at their under mentioned address within 14 (fourteen) days from the late of this notice, failing which it will be presumed that the title of the Subject Property is clear, alid and marketable and no one has any rights/ title/ interest/ claim/ demand whatsoever on the ubject Property. Any claims without supporting documents will not be entertained. lease mark your envelope with the superscription [CN-DSA].

LEXNEGOTIUM Advocates

Attn: Vikas Pant, Principal Partner 3-D, Row House Surya Vihar Apartments, Dundahera Gurgaon, 122016, Haryana Tel: +91 124 400 8001 | +91 989911 5125 | +91 987386 5125

COSCO (INDIA) LIMITED

CIN: L25199DL1980PLC010173 Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007 Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in

Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000 BSE Trading Symbol: COSCO

INFORMATION REGARDING 45TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC")/OTHER **AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")**

45th Annual General Meeting: Shareholders may note that the 45th Annual General

Meeting("AGM") of the Company will be held through VC/OAVM on Monday, 30th September, 2024 at 12:00 Noon(IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 28th December, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs("MCA") and Circulars Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, latest by October 7, 2023 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI, to transact the business(es) that will be set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the above Circulars, the Company will be sending electronics copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s) ("DP"). The Notice of 45th AGM and Annual Report for the Financial year 2023-24 will also be made available on the Company's website www.cosco.in, on the website of the Stock Exchange BSE Limited at www.bseindia.com where the equity shares of the Company are listed. AGM Notice will also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

Voting Information

Place: Delhi

Date: 28th August, 2024

Remote e-Voting facility ("remote e-Voting") is provided to the shareholders to cast their vote on Resolution(s) which are set out in the Notice of the AGM. Shareholders have the option to either cast their vote using the remote e-Voting facility prior to the AGM or e-Voting during the AGM. Detailed Instructions for remote e-Voting/e-Voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM to the shareholders of the

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on nos. 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

Shareholders who wish to register their e-mail address and/or update bank account mandate to receive company communication/dividend, are requested to please follow the following instructions:

For Shares held in Register/update the details in your demat account, as per the process advice by your DP; and

For Shares held in Register/update the details in the prescribed Physical form FORM ISR-1 with Registrar and Share Transfer

Agent of the Company M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd., Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-Pod-1/P/CIR/ 2023/37 dated 16th March, 2023 the Company has sent letters to the shareholders holding share in the physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective

Company's website at https://www.cosco.in/investors/holder-ofphysical-securities.

Further the shareholder can also access the relevant forms on

This notice is used for the information and benefit of all the members of the Company and is in accordance with the applicable circulars of the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board

For Cosco (India) Limited

Devinder Kumar Jain Managing Director and CEO DIN No. 00191539 Add: C-124, DLF Colony, Gurgaon- 122001

review of the exercise will be

दि बाजपुर को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) ई–निविदा सूचना

मिल में विभिन्न सामग्री तथा सेवाओं एवं मिल के पेराई सत्र Quota For the Recognized & affiliated institutes of SCERT For more details, 2024–25 के कुशल संचालन के दृष्टिगत मिल में 03 बॉयलरों हेतु ऐश पॉन्ड का मोडिफिकेशन कर निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत, प्रतिष्ठित एव अनुभवी ठेकेदारों से दिनांक 28.08.2024 साँय 4.00 बजे से दिनांक Rukmini Devi College of Education 30.09.2024 प्रातः 10.00 बजे तक ई—निविदा आमंत्रित की जाती है । ई-निविदा सूचना www.bazpursugar.com तथा विस्तृत 2-7, Sector-7, Rohini, Delhi # 7827577477, 885173805 निविदा प्रपत्र www.uktenders.gov.in से ड्राउनलोड की ज

कार्यकारी प्रबन्धक

APPENDIX IV-A Sale Notice for sale of Immovable Property E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Samma Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) ICIN L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession o which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold or "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 17.09.2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 30,69,449/- (Rupees Thirty Lakh Sixty Nine Thousand Four Hundred Forty Nine only) pending towards Loan Accoun No. HHLNO100339275, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 21.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 22.08.2024 along with enses and other charges due to the Secured Creditor from RANJEET RAN

The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 11,00,000/- (Rupees Elever Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,10,000/- (Rupees One Lakh Ten Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO. SF 3, SECOND FLOOR WITH ROOF RIGHTS, REAR RIGHT PLOT NO

D 7/14, DLF ANKUR VIHAR, LONI GHAZIABAD - 201102, UTTAR PRADESH. For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No : 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id : auctionhelpline@sammaancapital.com. For

> AUTHORIZED OFFICER SAMMAAN CAPITAL LIMITED (Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

APPENDIX IV-A Sale Notice for sale of Immovable Property E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement

Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaal Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN: L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 13.09-2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 15,48,426/- (Rupees Fifteen Lakh Forty Eight Thousand Four Hundred Twenty Six only) pending towards Loan Account No. HHLDCP00391858, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest iill 16.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 17.08.2024 along with least expresses and other charges due to the Secured Creditor from SANNI KIIMAR legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from SANNI KUMAF

The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 7,00,000/- (Rupees Seven Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 70,000/- (Rupees Seventy Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. SF - 403 (LIG) HAVING COVERED AREA 29.72 SQUARE METERS EQUIVALENT TO 320 SQUARE FEET ON 2ND FLOOR REAR LHS (WITH ROOF RIGHTS), IN THE COLONY KNOWN AS DLF ANKUR VIHAR, CONSTRUCTED UPON PLOT NO. A - 7/2, SITUATED IN PARGANA LONI, GHAZIABAD - 201102 UTTAR PRADESH.

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No : 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id : auctionhelpline@sammaancapital.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in.

Date: 20.08.2024

Date: 22.08.2024

Place: GHAZIABAD

AUTHORISED OFFICER SAMMAAN CAPITAL LIMITED (Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

APPENDIX IV-A

Sale Notice for sale of Immovable Property E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and

Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaar Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold or "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 30.09.2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 25,31,898/- (Rupees Twenty Five Lakh Thirty One Thousand Eight Hundred Ninety Eight only) pending towards Loan Account No. HHLRHN00391811, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 21.08.2024 with applicable future interest i terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 22.08.2024 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor fron

SANJAY KUMAR and NEETU. The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 14,82,100/- (Rupees Fourteen Lakh Eighty Two Thousand One Hundred only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,48,210/- (Rupees One Lakh Forty Eight Thousand Two Hundred Ten only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

RESIDENTIAL FLAT NUMBER GF - 3, M. I. G., (GROUND FLOOR), HAVING A COVERED AREA OF 700 SQUARE FEET I. E. 65.03 SQUARE METERS SITUATED AT PLOT NUMBER A - 47, BLOCK - A, COMPRISING OF KHASRA NUMBER 1278, IN "S. L. F. VED VIHAR", HADBAST VILLAGE LONI, DISTRICT GHAZIABAD -201102, UTTAR PRADESH.

BOUNDED AS : EAST : PLOT NO. A - 58 WEST : COMMON PASSAGE NORTH: FLAT NO. GF - 4 (M. I. G.) SOUTH : PLOT NO. A - 46 For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the

website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No: 0124-3910910, +91 7065451024; E-mail id: auctionhelpline@sammaancapital.com. Fo bidding, log on to www.auctionfocus.in **AUTHORIZED OFFICER**

SAMMAAN CAPITAL LIMITED (Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

FORM NO. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered

office of the company from one state to another Before the Central Government

Regional Director, Northern Region, Delhi In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of M/s OMANGOM INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED (CIN: U72300DL2015PTC288372) having its registered office at 11-12, Gandhi Market, Mir Dard Road, Near Gurunanak Eye Hosp., New Delhi, Delhi - 110002 IN.Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association o The Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinar General Meeting held on 05th August, 2024 to enable the company to changi its Registered office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this paties with a copy of the applicant company to the of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below For and on behalf of the Applicant

OMANGOM INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED

11-12, Gandhi Market, Mir Dard Road, Near Gurunanak Evs Hosp., New Delhi Delhi-110002 IN

Date: 24th August, 2024 sd/- Sainyam Aggarwal Director - DIN: 07347707

read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaan Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN: L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 30.09.2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 23,91,323/- (Rupees Twenty Three Lakh Ninety One Thousand Three Hundred Twenty Three only) pending towards Loan Account No. HHLDMT00336796, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 20.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) we.f., 21.08.2024 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from LALIT KUMAR, JYOTI and SAROJ.

The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 13,14,600/- (Rupees Thirteen Lakh Fourteen Thousand Six Hundred only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,31,460/- (Rupees One Lakh Thirty One Thousand Four Hundred Sixty only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

idding, log on to www.auctionfocus.in.

Date: 22.08.2024

documents vide LR No. 2035211/2024

APPENDIX IV-A

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Property
E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

RAJINDER PAL GAMBHIR

lated 17.08.2024

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO - SF - 10, 2ND FLOOR FRONT LHS, PLOT NO - B-8/1, DLF ANKUF VIHAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH – 201102.

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No: 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id: auctionhelpline@sammaancapital.com. For AUTHORIZED OFFICER SAMMAAN CAPITAL LIMITED
(Formerly known as
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

AUTHORIZED OFFICER SAMMAAN CAPITAL LIMITED

AUTHORISED OFFICER

APPENDIX IV-A Sale Notice for sale of Immovable Property

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaan Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN: L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 30.09.2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 24,15,316/- (Rupees Twenty Four Lakh Fifteen Thousand Three Hundred Sixteen only) pending towards Loan Account No. HHLNOI00273771, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 20.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 21.08.2024 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from RASHID, SAMIUDDINANSARI, KRISHAN and KULDEEP CHOUDHARY.

The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 15,75,500/- (Rupees Fifteen Lakh Seventy Five Thousand Five Hundred only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,57,550/- (Rupees One Lakh Fifty Seven Thousand Five Hundred Fifty only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

FLAT NO. UG - 1, UPPER GROUND FLOOR, FRONT RIGHT HAND SIDE, PLOT NO A - 159, BLOCK - A, SLF VED VIHAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No : 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id : auctionhelpline@sammaancapital.com. For oidding, log on to www.auctionfocus.in

Date: 22.08.2024 Place: GHAZIABAD

(Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

APPENDIX IV-A Sale Notice for sale of Immovable Property E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ad with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforce t) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaar Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession o which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold or as is where is" "as is what is" and "whatever there is" hasis on 30 09 2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 30,90,767/- (Rupees Thirty Lakh Ninety Thousand Seven Hundred Sixty Seven only) pending towards Loan Account No HHLNOD00291181, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late harges) and interest till 16.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loar Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 17.08.2024 along with lega expenses and other charges due to the Secured Creditor from MANISH KUMAR

MEHRA and AMIT KLIMAR MEHRA The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 12,25,000/- (Rupee Twelve Lakh Twenty Five Thousand only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,22,500/- (Rupees One Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred

only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. SF - 3, 2ND FLOOR, REAR LEFT HAND SIDE, PLOT NO. B-1/22A, DLF ANKUR VIHAR, LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201012. For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No : 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id : auctionhelpline@sammaancapital.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in.

SAMMAAN CAPITAL LIMITED (Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

Sale Notice for sale of Immovable Property E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

ead with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaa Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the physical possession of rhich has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold or , "as is what is" and "whatever there is" basis on 30.09.2024 from 04.00 P.M. to 05.00 P.M., for recovery of Rs. 19.04,937/- (Rupees Nineteen Laki Four Thousand Nine Hundred Thirty Seven only) pending towards Loan Accoun No. HHLNOD00420108, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 22.08.2024 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 23.08.2024 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from SURAJ SING!

and DEEPA SINGH The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 13,55,000/- (Rupee Thirteen Lakh Fifty Five Thousand only) and the Earnest Money Deposit ("EMD" vill be Rs. 1,35,500/- (Rupees One Lakh Thirty Five Thousand Five Hundred only i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY ALL THAT PIECE AND PARCEL OF UPPER GROUND FLOOR WITHOUT ROOF TERRACE RIGHTS TOWARDS BACK SIDE, RIGHT PORTION OF BUILT - UP

PROPERTY BEARING PLOT NO. 105 AND 106, ADMEASURING 42 SQ. YDS. I. E. 35.12 SQ. MTR. APPROX., OUT OF KHASRA NO. 11/12, 13/1, SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE MATIALA, DELHI STATE, AREA ABADI KNOWN AS COLONY MANSA RAM PARK, BLOCK - D - 1, UTTAM NAGAR, NEW DELHI 110059, WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF THE LAND UNDERNEATH, COMMON RIGHT TO USE OF STAIRCASE, ENTRANCE, PASSAGE & SUBMERSIBLE, WITH ALL COMMON RIGHTS OF THE BUILDING, INCLUDING RIGHTS TO APPURTENANT THERETO, WITH COMMON ONE TWO WHEELER PARKING SPACE AT THE GROUND FLOOR OF THE SAID PROPERTY, WHICH IS ENTRY/FRONT SIDE FLAT/ROAD 20 FT. WIDE WEST

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.sammaancapital.com; Contact No. 0124-6910910, +91 7065451024; E-mail id: auctionhelpline@sammaancapital.com. For

LHS FLAT / PART OF PLOT NO. 106

VACANT PLOT

idding, log on to www.auctionfocus.in

Date: 22.08.2024

AUTHORIZED OFFICER SAMMAAN CAPITAL LIMITED (Formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)

Place: Muradnagar

(Khushbu Singhal) Company Secretary& Compliance Officer Membership. No.: A57544

the Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India and the State

विधानसभा चुनाव में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी

७० पर जेजेपी और २० पर चंद्रशेखर की पार्टी उतारेगी अपने प्रत्याशी

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक और गठबंधन अस्तित्व में आ गया है। करीब साढे चार साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में भागेदार रहने वाली जननायक जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिक्रिय आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन किया है। इस पार्टी का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद रावण करते हैं।

आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान में सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश के नगीना से तथा हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नागौर से सांसद हैं। दोनों दलों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी।

हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम एवं जजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला तथा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संयोजक चंद्रशेखर रावण ने मंगलवार को नई दिल्ली में



घोषणा की। जजपा 70 विधानसभा करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉ जेजेपी ने भी एससी कर्मचारियों के सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबिक आजाद समाज पार्टी 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

दुष्यंत चौटाला ने सोमवार की रात को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि किसान कमेरे की लड़ाई, हम लड़ते रहेंगे बिना आराम, की

भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने में कांशीराम और चौ देवीलाल का अहम योगदान रहा है। कहा कि दोनों महापरुष लिए सदैव प्रयासरत रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौ. देवीलाल ने एससी साथियों के लिए हरियाणा में का निर्माण करवाया नंबरदारी में एससी और बीसी वर्ग ऐतिहासिक कदम उठाए। इसी तरह

प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण देने, एससी चौपाल का विकास करवाने जैसे काम किए है।

इस दौरान एएसपी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा क्योंकि हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेजेपी और एएसपी का गठबंधन एक और एक ग्यारह की ताकत है, दोनों दल

किरण चौधरी हरियाणा से निर्विरोध चुनी गई राज्यसभा सांसद

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी हरियाणा से निविरोध राज्य सभा की सांसद बन गई हैं। मंगलवार को चुनाव अधिकारी साकेत कुमार ने उन्हें राज्य सभा सदस्य का प्रमाण पत्र जारी किया।

किरण चौधरी को भाजपा ने 20 अगस्त को भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद 21 अगस्त को उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया, इस कारण से किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाने का

98 नर्सिंग ऑफिसर की

पदोन्नति का विवाद चुनाव

चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य

विभाग में चुनावों की घोषणा के

दौरान 98 नर्सिंग ऑफिसर की

पदोन्नति व तबादलों को लेकर छिडा

विवाद निर्वाचन आयोग तक पहुंच

गया है। आयोग के नोटिस के जवाब

में महानिदेशक ने तर्क दिया है कि

पदोन्नति सूची चुनावों के ऐलान से

पहले ही जारी हो गई थी कि इंटरनेट

नहीं चलने के बाद सीएमओ को यह

की घोषणा के साथ ही स्वास्थ्य

विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की

सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर

पदोन्नति करने की शिकायत वरिष्ठ

एडवोकेट ने भारत निर्वाचन आयोग

सार्वजिक स्राना
भेरे मुब्बिकल श्री राजेश कुमार पुत्र श्री विरंजी लाल,
संपास संख्या डी-33 पर निर्मित, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग गीटर, खलरा नंबर 45 में है, का मालिक है जो ग्राम सलस्वा जहांगीर पुर, अब कॉलोनी जिस्से रवामी श्रद्धानंद पार्क, दिल्ली के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। पार्क, दिल्ली के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। पार्क, दिल्ली होता श्री राजेश कुमार पुत्र श्री विरंजी लाल के पक्ष में निमातित है। पार्कोश्वरण संख्या 2024/18/18/039 SR-VI-A. दिल्ली में है। पार्योक्त संपत्ति को फेड बैंक फाइनेंशियत सर्वितंक जिमिटेड के पार्या गिरकी होता रही है। बदि किसी पार्वित श्रीकार वैकृत वित्तीय संस्थानों जा

रही है। यदि किसी व्यक्ति / बैंक / वित्तीय संस्थान के प

रहा है। यदि किसी व्यावता / बेक, वित्तीय संस्थान के पास प्रपरोवल संपनि के संबंध में कोई दावा, 'अधिकार, प्रहणाधिकार, कोई आपत्ति हैं, तो उसे अधोहस्ताक्षरी / अधिववता विशाल भेहन, ई-713, कडकड़्ड्मा कोर्ट, दिल्ली-110092 को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत पते के तहत दस्तायेजी साक्ष्य के साथ सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी दावें, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माफ कर विद्या ग्या माना जाएगा।

या गया माना जाएगा। विशाल मेहन, अधिवक्त ई–713, कड़कड़ड़ूमा कोर्ट, दिल्ली–110092

PUBLIC NOTICE

Gupta is the owner of Entire second & third floor with

Public Notice

is transaction should be raised within a perio

objections submitted after the completion of this

7-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of

of 7 days from the date of this public notice

मोबाइल नंबर 9811215181

हरियाणा में विधानसभा चुनाव

सूची देरी से भेजी गई।

के समक्ष की थी।

आयोग के पास पहुंचा



राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद किरण चौधरी को बधाई देते नेता, साथ में सीएम नायब सिंह सैनी।

रास्ता बन गया। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम

वापसी का अंतिम दिन था। यह समय पूरा होने के बाद किरण चौधरी को राज्य सभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके बाद अब यहां

राज्य सभा की यह सीट कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में जाने के बाद रिक्त हुई थी। किरण चौधरी से पहले हरियाणा से भाजपा के राज्य सभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, सुभाष बराला तथा रामचंद्र जांगड़ा हैं। कार्तिकेय शर्मा भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे। अब किरण चौधरी के राज्य सभा में जाने से वहां भाजपा सांसदों की संख्या पांच हो गई है। किरण चौधरी का यह कार्यकाल अप्रैल 2026 तक रहेगा

कंगना रानौत की फिल्म के खिलाफ कोर्ट में याचिका

चंडीगढ। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत की फिल्म इमरजेंसी की रीलीज को रोकने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है।

मोहाली निवासी गुरिंदर सिंह और गुरमोहन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके फिल्म पर रोक लगाने तथा सेंसर बोर्ड का सर्टीफिकेट रद्द करने की मांग की है। याचिका में फिल्म में सिख समदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है।

पत्र स०. ७५२ /एस०टी-सी०एम०/वि०पजी०/2024 दिनांक: 09/08/2

सार्वजनिक सूचना श्री रामेन्द्र दुबे पुत्र श्री भूपेन्द्र नाथ दुबे निवासी फ्लैट नं० 185, रेल विहार, सेक्टर-33 नोएडा, गौतमबुद्धनगर एवं Ms Hanna Shvets D/o Mr. Volodymyr Shvets R/o Serednyyofontanska 30, Apartmen 125. Odesa, Ukraine-65039 ने विशेष विवाह है। इस संबंध में आपत्तिधारी व्यक्ति अपनी आपत्ति/आपत्तिय क्ष्रिरी कार्यालय में दिनांक 08.09.2024 तक किसी

भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। प0 नगर मजिस्टेट विशेष विवाह अधिकारी गौतमबुद्धनगर.

सार्वजनिक सूचना मेरे मुवक्किल श्री उधम सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, व् 1500 वर्ग गज यानी 1254.15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वा पक्ष में निष्पादित है। पंजीकरण संख्या 4986 SR-II, नोए उत्तर प्रदेश में है। उपरोक्त संपत्ति को फेड बैंव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास गिरवी होने ज फाइनाश्यल संतर्वस्त तिमाटङ क पास गिराय हिंग स्हि है। यदि किसी व्यक्ति , वैंक / वित्तीय संस्थान के पास उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा / अधिकार ग्रहणाधिकार, कोई आपति है, तो उसे अधीक्तला विशाल मेहन, ई-713, कडकड़ुझा कोर्ट दिल्ली—110092 को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिनों के भीतर पंजीकृत पत्ते के तहत दस्तांवेंती स ७ (दमी के मीतर पंजाकृत पत के तहत दस्तावजा साक्ष्य के साथ सूचित किया वाला चाहिए। (हंग न करने पर किसी भी दाव, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माक कर दिया गया माना जाएगा। विशाल मेहन, अधिवक्ता ई—713, कड़कड़ड़्मा कोर्ट, दिल्ली—110092, मोबाइल नंबर 9811215181

Gupta is the owner of Entire second & third floor with roof rights "said floor", Built up property bearing no. 03. Area measuring 292.22 Sq. yds., Situated in the layout plan of Gujranwala town, Gujranwala Co-operative housing building society, Part II, Delhi throughGiff deed dated28.08.2021 as doc. No. 11526 executed by Mr. Kapil Gupta in favour of Mrs. Seema Gupta in respectof Said Property.

Mrs. Seema Gupta is in the process of mortgaging the saidisin the process of mortgaging the process of mortgaging this transaction should be raised within a openied of 7 days from the date. PUBLIC NOTICE It is to informed to the public at large that one Sh. Neeraj Nagpal (Aadhar 3986 6286 7611), Sh. Gaurav Nagpal (PAN AIYPN8919K) & Sh. Ravinder Kuma Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 7 days from the date of Property No. 39 measuring 1587.5 sq. yds. Situated at Northern Extension Scheme No. 1, Bunglow Road, Kamla Nagar, Delhi, hereinafter of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 7-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests referred to as "said property" having acquired the ofourclient. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated7-day period by contacting Law Veritas:North (Advocates & Legal Consultantis)at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A44/A, Sector-16, Noida, Utar Pradesh-201301; Landline same by virtue of Partition Deed dated 26.08.2019 (50% Share) and Sale Deed dated 10.06.2020 (50% Share). Late Devki Nandan Khanna died leaving behind his following LRs namely 1. Bodh Raj Khanna (died and survived by Chander Mohan Khanna, KedarNath (s):+910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in Khanna, Kewal Parkash Khanna and Anuradha Anand as the only LRs), 2. Sohan Lal Khanna (died and This is to inform the general public that Mrs Krishna Devi is the owner of Pvt no. 9 on Second Floor Front Side Portion "Said Floor" built or and Shakuntala Devi as the only LRs and Shakuntala Devi died leaving behind Navneet Dhawan, Neelima Property bearing no. B-72, area measuring 63 sq. yards., i.e., 52.67 sq. meters., out of Khasra no. 38 situated in the abadi of B Block, Shashi Sachdeva and Payal Berry as the only LRs) and 3. Kanshi Ram Khanna (died and survived by Surender 38 situated in the abadi of B Block, Shashi Garden, in the area of Kotla, Illaga Shahdara, Delhi-110091. through Sale Deed dated 20,10.2022 as doc no. 9870 executed by Mr. Arun Khanna on behalf of Mrs. Brij Bala Khanna in favour or Mrs. Krishna Devi. Mrs. Krishna Devi is in the process of mortgaging the said is in the process of mortgaging Aditya Birla Housing Finance Limited. Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a portical. Lal Khanna (died) and Rajeev Khanna (died as unmarried and survived by LRs namely Kamlesh Khanna, Tineesh Khanna and Preeti Khanna as the only LRs). The said Property has been mortgaged by the owner with HDFC Bank Limited (our client) Further, It is hereby declared that title of the said

कॉस्को (इंडिया) लिमिटेड

CIN L25199DL1980PLC010173 पंजीकृत कार्यालयः 2/8, रूप नगर, दिल्ली-110007 वेबसाइट: www.cosco.in ईमेल: mail@cosco.in टेलीफोन: 91-11-23843000 फैक्स: 91-11-23846000

बीएसई ट्रेडिंग सिंबलः कॉस्को वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 45वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत जारी नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लाग प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20 / 2020, दिनांक 5 मई, 2020, 10 / 2022 दिनांक 28 देसबर, 2022, 09 / 2023 दिनाक 25 सितंबर, 2023 और सेबी द्वारा जारी 13 मई, 2022 के परिपत्र संख्या— SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4. दिनांक 5 जनवरी, 2023 के साथ, 7 अक्टबर, 2023 तक, एमसीए और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के साथ, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी उन सभी शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजेगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए 45वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.cosco.in, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। एजीएम नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

मतदान संबंधी जानकारी

एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट [ई—वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई—वोटिंग'') प्रदान की जाती है। शेयरधारकों के पास एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके या एजीएम के दौरान ई—वोटिंग करके अपना वोट डालने का विकल्प होता है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग / ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश कंपनी के शेयरधारकों को एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या 022—4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ट प्रबंधक, एनएसडीएल evoting@nsdl.com को अनुरोध भेज सकते हैं।

जो शेयरधारक कंपनी से संचार / लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराना चाहते हैं और / या बैंक खाता अधिदेश अद्यतन कराना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

आपके डीपी द्वारा प्रक्रिया सलाह के अनुसार अपने डीमैट खाते में में रखे गए शेयरों | विवरण पंजीकृत / अपडेट करें, और

भौतिक रूप में कंपनी मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रखे गए शेयरों रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट के साथ निर्धारित फॉर्म ISR-1 में के लिए विवरण को पंजीकत / अपडेट करें। सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-Pod-1/P/CIR/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार कंपनी ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को केवाईसी विवरण प्रस्तत करने के लिए पत्र भेजे हैं जो

उनके संबंधित फोलियो में पंजीकृत नहीं हैं।

इसके अलावा शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट https://www.cosco.in/investors/ holder-of-physical-securities पर भी संबंधित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यह नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए उपयोग किया जाता

है और यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लागू परिपत्रों के अनुसार है। कृते कॉस्को (इंडिया) लिमिटेड हस्ता / – देविंदर कुमार जैन

प्रबंध निदेशक और सीईओ डीन नं. 00191539

बसपा ने घोषित किए चार उम्मीदवार

चंडीगढ़। हरियाणा में इनेलो और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा 37 सीटों पर चुनाव लडेगी तो इनेलो 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मंगलवार को बसपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।

प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल तिगरा की ओर से जारी की सूची में चार विधानसभाओं के नाम घोषित किए गए हैं। इनमें जगाधरी विधानसभा से दर्शन लाल खेड़ा, असंध से गोपाल सिंह राणा, नारायणगढ़ से हरबिलास सिंह और अटेली से ठाकुर अत्तर लाल का नाम शामिल है।

धर्मपाल तिगरा के मुताबिक बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती की रायशुमारी के बाद चार उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित की गई है। बाकी उम्मीदवारों की सूची बाद में जारी की जाएगी।

विकास डब्ल्यएसपी लिमिटेड सीआईएनः L24139HR1988PLC030300

पंजीकृत कार्यालयः रेलवे रोड सिवानी हरियाणा-127046, कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-86/87, उद्योग विद्यार, रीको, औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान-335002 वेबसाइट: www.vikaswspltd.in; ई-मेल आईडी: csgujanvikaswspltd1984@gmail.com फोनः 91(154) 2494512/2494552, फैक्सः 31(154) 2494361/2475376

35वीं वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर से संबंधित जानकारी

तदृवारा सचित किया जाता है कि मेसर्स विकास डब्ल्यएसपी लिमिटेड (सीआईआरपी के अंतर्गत कंपनी) के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को पूर्वाह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-के माध्यम से सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जानी है जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा परिपन्न दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल परिपत्र सं. 10 / 2022 दिनांक 28.12.2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 05 जनवरी, 2023, 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 के परिपत्रों द्वारा अनुमति दी गई है ताकि 26 अगस्त, 2024 के एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके

एमसीए / सेबी के लागू परिपत्र के अनुसार, जैसा कि ऊपर वर्णित है, वार्षिक रिपोर्ट 2022—2023 (जिसमें वित्तीय विवरण, शेयरधारकों को रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं) के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पत कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022—2023 क्रमशः कंपनी की वेबसाइट www.vikaswspltd.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने हे निर्देश एजीएम की सचना में दिए जाएंगे। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को कैंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएमे के दौरान ई-वोटिंग सिस्टेम के माध्यम से मतदान की सुविधा ("ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है। रिमोट ईवोटिंग /ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में मागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में गई है। रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेशियल सदस्यों को मेल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ईमेल नहीं मिला है या जिनका ईमेल पता कंपनी / जमाकर्ताओं के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेंडेंशियल जनरेट कर सकते हैं। वही लॉगिन क्रेडेंशियल वीसी / ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते

पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति कंपनी को ईमेल द्वारा csvikaswspltd@gmail.com और csgunjanvikaswspltd1984

एक हस्ताक्षरित अनरोध पत्र जिसमें उनका नाम, फोलियो संख्या और पता अंकित हो।

सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (अर्थात आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बिजली पहचान पत्र या पासपोर्ट) की स्वयं सत्यापित प्रति ।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकत / अद्यतन करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें, जिसमें रजीएम में भाग लेने के निर्देश, एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका शामिल है। कपया कंपनी के सचिवालय विभाग को बी-86 / 87, रीको, उद्योग विहार,

कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 14 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 तक बंद रहेगी। विकास डब्ल्यएसपी लिमिटेड (कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत) हेत्

समाधान पेशेवर श्री दर्शेन सिंह आनंद के आदेश द्वारा

दिनांक: 26.08.2024

स्पेस इनक्यूबैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः पवन पुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद-201206 उत्तर प्रदेश (भारत सीआईएनः L17100UP2016PLC084473

ईमेल: spaceincubatrics@gmail.com वेबसाइट: www.spaceincubatrics.com, फोनः 01232-261288

एजीएम की सूचनाः

रतद्वारा सचित किया जाता है कि स्पेस इनक्यबैटिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:30 बजे पवन पुरी, मुरादनगर, गाजियांबाद–201206 (यूपी) में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22 अगस्त 2024 की एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों का संचालन किया जाएगा। एजीएम की सूर्वेना, उसके स्पष्टीकरणात्मक कथन और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अलग से भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकत हैं। एजीएम की सचन की भौतिक प्रतियां उन सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकत पतों पर, अनमत मोड द्वारा भेर्ज गई हैं, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं। वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.spaceincubatrics.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ के अनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 व साथ पठित, वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को दूरस्थ

रिमोट ई-वोटिंग 18 सितंबर, 2024 को सुबह 10:00 बजे (बुधवार) शुरू होगी और 20 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (शुक्रवार) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा 20 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (शुक्रवार) के बाद अक्षम कर दी जाएगी और उक्त तिथि और समय से परे किसी भी मतदान की अनमति नहीं दी जाएगी और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे

कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कट ऑफ तिथि अर्थात 14 सितंबर 2024 (शनिवार को शेयर रखता है, वह कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) य सीडीएसएल से ई—वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निम्नलिखित संपर्की

पर सीडीएसएल या आरटीए से जुड़कर प्राप्त कर सकता है: टेलीफोन नं.: 022—23058738 और 22—23058542—43, ई—मेल आईडी:

वार्षिक आम बैठक स्थल पर मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई

(iv) कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगीः

मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना इस लिंक https://www.spaceincubatrics.com/wp-content/uploads/2024/08/notice_8th agm_space.pdf से डाउनलोड की जा सकती है

अंतर्गत उपलब्ध ''सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पस्तिका" का संदर्भ ले सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी अन्य शिकायत के लिए, सदस्य टोल फ्री नंबर 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं या श्री आनंद तिरोडकर, श्री देबोरशी चौधरी, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'फिरोज जीजीभॉय टावर्स, 17वीं दलाल स्ट्रीट, मुंबई – से निर्दिष्ट ई-मेल आईडी 400001, helpdesk.evoting@cdslindia.com या टेलीफोन नं. (022) 23058615, (022—23058634 फैक्सः (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और हरित पहल के भाग के रूप में

कंपनी अपने सदस्यों को अपना ई–मेल पता प्रदान करने / अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है. ताकि नोटिस / दस्तावेजों / वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक रूप से सेवा प्रदान की जा सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए रिकॉर्ड के अद्यतनीकरण का अनरोध कंपनी या आरटीए को और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिपॉर्जिटरी प्रतिभागी को भेजा जाना चाहिए ।

सरकारों द्वारा जारी नवीनतम दिशा—निर्देशों / सलाहों / एसओपी के अनुसार सामाजिक दूरी के मानदंडों और फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन आदि सहित अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती रे पालन करते हुए उक्त स्थल पर एजीएम आयोजित की जाएगी कृते स्पेस इनक्यूबैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(खुशबू सिंघल)

भवन") और भिम के उस हिस्से (अनसची-। में आगे उल्लिखित "भिम") में संबंधित अविभाजित हित के संबंध मे जिस पर भवन का निर्माण किया गया है, में अपने हिस्सों/इकाइयों के अधिग्रहण के संबंध में (1) श्री अनप कमा अरोरा पुत्र श्री अशोक कुमार अरोरा (2) श्री सुखविंदर सिंह चड्डा पुत्र श्री अजीत सिंह चड्डा (3) श्री महेश चंद गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामलाल गोयल (4) श्री राम नरेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.एल. अग्रवाल (5) श्री दुर्गा फाउंडेशन क चैरिटी ट्रस्ट, जिसका कार्यालय 5/19-बी, रूप नगर, दिल्ली-110007 में है (6) राम नरेश अग्रवाल एचयूएप ्क हिंदू अविभाजित परिवार, अपने कर्ता राम नरेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर. एल. अग्रवाल के माध्यम से, (७) 5/19-बी, रूप नगर, दिल्ली-110007 में है (9) श्री उदित अग्रवाल पुत्र श्री राम नरेश अग्रवाल (10) श्री सिद्धार्थ कुमार पुत्र श्री प्रभु दयाल (11) श्री राम कुमार भाटिया पुत्र श्री बलदेव राज भाटिया (12) श्री नरेश कुमार भाटिया पुत्र श्री बलदेव राज भाटिया (13) श्री सुरिंदर कुमार भाटिया पुत्र श्री बलदेव राज भाटिया (14) श्रीमती वीना भाटिया पर्व सरिंदर कुमार भाटिया (15) श्रीमती सुनीता भाटिया पत्नी राम कुमार भाटिया (16) श्रीमती रेण भाटिया पत्नी नरेश कुमार भाटिया और (17) ब्लैक पेपर हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंटस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकत कार्यालय प्लॉट नं. 3 एलजीएफ, सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा, दिल्ली-110032 (1 से 17 को संयुक्त तौर पर "मालिक" के तौर पर संदर्भित) वे पाथ टांजिक्शन में प्रविष्ट करने का इच्छक है।

1998 वर्ग मीटर के सभी भाग एवं पार्सल. जिसकी चौहद्दी निम्नानसार है: पूर्व : खुला स्थान, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या 5

अनुसुची-II

भवन का अभिप्राय भिम पर निर्मित भवन होगा. अर्थात एकल स्वतंत्र वाणिज्यिक भवन जिसमें (द्व) बेसमेंट माप 1033.27 वर्ग मीटर, (ii) भूतल माप 1184.26 वर्ग मीटर, (iii) प्रथम तल माप 1166.08 वर्ग मीटर, (iv मीटर, अर्थात 61,297.64 वर्ग फीट (कवर्ड एरिया) और (vi) तृतीय तल के ऊपर टेरेस शामिल होगा।

यदि किसी व्यक्ति अथवा कोई काननी इकाई जिसमें कोई सरकारी/सार्वजनिक विभाग, बैंक या वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं. को विषयगत संपत्ति या उसके किसी भाग में बिक्री. हस्तांतरण, विनिमय, असाइनमेंट, वसीयत. रिलीज त्याग, डिक्री या किसी न्यायालय के आदेश, भार, बंधक, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, लाइसेंस, उपहार, उत्तराधिकार अविभाजित हिस्सा, कब्जा, सुखभोग, ट्रस्ट, वसीयत, पट्टा, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, लीव और लाइसेंस, ऋ सुखभोग, विकल्प, प्रथम इनकार या पूर्व ऋय या किसी भी प्रकार के भार का अधिकार या अन्यथा, या किसी समझौते, लिख, दस्तावेज, या पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी भी तरह की किसी भी आपत्ति/ओं के तहत किसी भी प्रकार क नोटरीकत/प्रमाणित सत्य प्रतियों के साथ लिखित रूप में नीचे दिए गए पते पर इस अधिसचना की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर सुचित करना आवश्यक है। सुचना प्राप्त न होने पर यह माना जाएगा कि विषयगत संपत्ति का शीर्षक स्पष्ट वैध और विक्रय योग्य है और विषयगत संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार/शीर्षक/हित/दावा/मांग नहीं है। बिन सहायक दस्तावेजों के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्पया अपने लिफाफे पर [सीएन-डीएसए] लिखकर अंकित करें।

भूमि और भवन को इसके बाद "विषय संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया गया है।

लेक्सनेगोटियम एडवोकेटस ध्यानार्थ - विकास पंत, मुख्य भागीदार 3-डी, रो हाउस सूर्य विहार अपार्टमेंट, डुंडाहेडा गुरुग्राम, 122016, हरियाणा दरभाष :- +91 124 400 8001 7 +91 989911 5125 7 +91 987386 5125

विकास डब्ल्युएसपी लिमिटेड

सीआईएनः L24139HR1988PLC030300 पंजीकृत कार्यालयः रेलवे रोड सिवानी हरियाणा-127046 भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः बी-86/87, उद्योग विहार, रीको, औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान-335002 वेबसाइटः www.vikaswspltd.in; ई-मेल आईडीः csgujanvikaswspltd1984@gmail.com फोनः 91(154) 2494512/2494552, फैक्सः 31(154) 2494361/2475376 30 जून, 2024 को तिमाही समाप्ति हेत्

अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

तिमाही समाप्ति वर्ष समाप्ति 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 31.03.2024 परिचालन से कुल आय (शब्द) कर और असाधारण मद पूर्व परिचालन से लाभ / हानि (876.77)(934.85) (872.15) कर पूर्व और असाधारण मद पश्चात परिचाल कर पश्चात् अवधि / वर्ष हेत् शुद्ध लाभ / (हानि) (47.37) (876.77)(872.15) (2,661.91) अवधि/वर्ष हेतु कुल व्यापक आ (876.77)(30.38)(872.15)(2,644.92) प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी 2.044.40 2.044.40 2.044.40 आय/(हानि) प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं) (1.29) (0.43)(0.01)(0.43)(1.29)

समाधान पेशेवर

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (''एनसीएलटी''), चंडीगढ पीठ ने 2 फरवरी, 2022 को दिए गए अपने आदेश के तहत दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (''कोड'') की धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (''सीआईआरपी'') शुरू करने की याचिका को स्वीकार कर लिया था और संहिता के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री दर्शन सिंह आनंद, पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931 को अंतरिम समाधान पेशेवर (''आईआरपी' नियुक्त किया है। श्री दर्शन सिंह आनंद को 17 मार्च, 2022 को आयोजित लेनदारों की समिति (प्सीओसीर्) की दूसरी बैठक में कंपनी के लिए समाधान पेशेवर (''आरपी'') के रूप में पुष्टि की गई है। सीआईआरपी शुरू करने के लिए एनसीएलटी के आदेश के अनुसार और संहिता के प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित रहेंगी और आरपी द्वारा प्रयोग की जाएंगी। कंपनी का रिकॉर्ड पूरी तरह से आरपी को नहीं सौंपा गया हैय इसलिए, आईबीसी की धारा 19(2) के तहत आवेदन एनसीएलटी को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि सीआईआरपी कार्यवाही की शुरुआत के समय प्रबंधन द्वारा 15.02.2022 को ईमेल के माध्यम से सचित किया गया था कि रैनसमवेयर हमले के कारण 01.04.2021 से पहले टैली डेटा, अचल संपत्ति रजिस्टर और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त नोट संख्या-1 के क्रम में, कोड के अनुसार, कंपनी को सीआईआरपी के दौरान एक चालू रूप में प्रबंधित किया जा रहा है। इसके अलावा, सीआईआरपी के तहत, मेसर्स आर्कबोल्ट स्पेस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित किया गया था और अक्टबर 2022 में माननीय एनसीएलटी को प्रस्तुत किया गया था, जिसे कंपनी को चालू व्यवसाय के रूप में बनाए रखने के लिए एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त तथ्यों और कंपनी के निरंतर संचालन को देखते हुए, वित्तीय विवरण चालु व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ऊपर नोट संख्या -1 में उल्लिखित कारणों के लिए, कंपनी ने ''रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं'' पर इंड-एएस 10 द्वारा अपेक्षित वित्तीय परिणामों की तैयारी में मूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर किसी भी प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है, यदि कोई हो। इसके अलावा, कंपनी ने मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में 30 जून 2024 को परिसंपत्तियों की हानि पर 36 के रूप में इंडस्टीज द्वारा आवश्यक उनके उचित मुल्य में अपनी हानि का पर्ण मूल्यांकन भी नहीं किया है। कंपनी मूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की हानि का आकलन करना जारी नहीं रखर्त

उपरोक्त पैरा-1 में उल्लिखित कारणों के लिए. कंपनी ने वित्तीय साधनों की वहन राशि में आवश्यक किसी भी समायोजन और परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को 30 जन, 2024 को समाप्त अवधि और वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए नकसान पर विचार नहीं किया है, जो सभी परिसंपत्तियों की वहन राशि की व्यापक समीक्षा लंबित है (माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के तहत शेष राशि सहित) और व्यापार प्राप्य सहित देनदारियों, 30 जून, 2024 तक भूगतान किए गए अग्रिम, व्यापार देयता, प्राप्त अग्रिम, अन्य अल्पकालिक देनदारियां आदि जो अपष्ट हैं और एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लंबित कार्यान्वयन के कारण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की हानि और देनदारियों को वापस लिखने के लिए गैर-प्रावधान के साथ-साथ परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की हानि के लिए गैर-प्रावधान के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वित्तीय आस्तियों और देयताओं के उचित मल्य का निर्धारण न करना और अन्य आस्तियों और देयताओं के लिए वहन राशि वहन करने में हानि इंड-एएस-109 ''वित्तीय साधन'', इंड-एएस-10 ''रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं", इंड-एएस-36 ''आस्तियों की हानि'' और इंड-एएस-37 ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियां'' के अनपालन में नहीं हैं।

माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त समाधान पेशेवर ने कॉर्पेरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अर्थात 02-02-2022 के शुरू होने की तारीख को स्टॉक की मात्रा और वसूली योग्य मूल्य को सत्यापित करने के लिए स्टॉक ऑडिटर नियुक्त किया था। ऐसी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष के अंत में 30-06-3024 तक क्लोजिंग स्टॉक को रु. 207. 38 लाख

समाधान पेशेवर को निश्चित संपत्ति रजिस्टर और पूर्व प्रबंध द्वारा मूल्यहास के पिछले विवरण नहीं सौंपे गए हैं, इसलिए मूल्यहास को एसएलएम आधार पर मापा जाता है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और भिन्न हो सकती है।

समाथान पेशेवर को सभी अचल संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं मिले हैं। अत अचल संपत्तियों का ब्यौरा (अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करार कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और उपयोग के अधिकार में शामिल वित्तीय विवरणों में शामिल हैं। बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी का नाम उपलब्ध /खलासा नहीं किया जा सकता। कॉर्पोरेट देनदार के पूर्ववर्ती प्रबंधन द्वारा रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को अधिक सामग्री जानकारी और दस्तावेज

उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और परिणामस्वरूप, समाधान पेशेवर वैधानिक लेखा परीक्षकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तत करने में सक्षम नहीं है। कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्ती प्रबंधन से सचना और कागजात के अपने अधिकार को लाग करने के लिए समाधान पेशेवर ने भारतीय दिवालियापन संहिता-2016 की धारा 19 (2) के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल चंडीगढ बेंच के साथ एक आवेदन, आवेदन पत्र IA.NO 764/2022 के साथ दायर किया है।

कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी (''भारतीय लेखा मानक'') संशोधन नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक, संशोधन नियम, 2016) द्वारा संशोधित किया गया है।

ये वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक 34 (आईएनडी-34) में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित ''अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित और अन्य लेखा सिद्धांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं, परिपन्न के साथ पठित कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और कंपनी के समाधान पेशेवर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

माननीय एनसीएलटी-चंडीगढ़ पीठ के दिनांक 02-02-2022 के आदेश के पैरा 14 द्वारा अधिस्थगन लगाए जाने के मद्देनजर तिमाही के दौरान बैंकों, संस्थानों-अन्य संगठनों को देय बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

11. समाधान पेशेवर को कामगारों का दावा प्राप्त हुआ है, जिसे ऋणदाता समिति द्वारा 08.08.2023 को संपन्न मतदान में 49,62,72,600/- रुपये के लिए स्वीकार किया गया है। हालांकि कंपनी के वित्तीय विवरणों वे अनुसार कामगारों को देय राशि 23,34,76,371/- रुपये हैं, इसलिए कंपनी पर 26,27,99,829/- रुपये की

31-03-2022

आकस्मिक देयता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

("www.vikaswspitd.in") पर उपलब्ध है।

दिनांक: 27.08.2024

सीओसी के अनुमोदन से स्वीकृत राशि वेतन और बोनस देय 19,51,90,451/-21,33,95,447/-40,85,85,898/-ग्रेच्यटी देय 23,34,76,371/-कुल 49,62,76,200/-

दिनांक 08-08-2023 के

12. आपर्तिकर्ताओं को क्रमशः 20.43 लाख रुपये और 6674.75 लाख रुपये की पंजीगत अग्रिम और अग्रिम पूष्टि के अधीन है और इसकी वसूली संदिग्ध है। माननीय एनसीएलटी-चंडीगढ़ पीठ के समक्ष प्रस्तुत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए लंबित वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

13. वैट वसूली योग्य और जीएसटी क्रेडिट प्राप्य शेष राशि 142.09 लाख रुपये की राशि समाधान के अधीन है। 14. रुपये 297.32 लाख की सीमा तक बैंक शेष की पृष्टि नहीं की गई है और यह समाधान के अधीन है।

15. वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार विवरणों की तुलना और बेहतर प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाने के लिए, जहां

भी आवश्यक समझा गया. पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को पनः समहीकत/पनर्वयवस्थित किया गया है। 16. त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट

> विकास डब्ल्युएसपी लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत कंपनी) हेतु और उसकी ओर से, हस्त /

दर्शन सिंह आनंद रिजोल्यशन प्रोफेशनल

IBB/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931

our client. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 7-day period by contacting Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A.44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in

S.C. VARSHNEY (Sr. Advocate) R-14/178, Raj Nagar, Ghaziabad-201002, Mo: 8882600727

rvived by Bansi Lal Khanna, Sudershan Khann

. आवासीय मकान का मालिक है। जो खसरा नं अप जांचराच पंजान विकास है। जो द्वारा वि पर्सम में से हैं। जो ग्राम याकूबपुर, परमाना दाद इसील और जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थि । पंजीकृत उपहार विलख दिनांक 22.08.2024 । ध्यम से हैं, जो श्री गजराज सिंह द्वारा श्री उधम सिंह

-owners of Entire Second Floor without roof rights Property, is absolutely valid, clear and marketable and there is no dispute / Litigation pending in any court of law, in respect of said Property. Whosoever, is having any objection to said mortgage OR any Person having any type of claim/right/title/interes over the said property may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type

दिनांकः 28 अगस्त. 2024

पताः सी–124, डीएलएफ कॉलोनी, गुड़गांव–122001

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज

इस संबंध में, सदस्य कृपया ध्यान दें कि: र्द—वोटिंग सविधा पटान करने में पसन्त है।

रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से और एजीएम के स्थल पर मतदान के लिए शेयरधारकों के निर्धारित करने के उद्देश्य से कट ऑफ तारीख शनिवार, 14 सितंबर, 2024 (कट ऑफ तारीख) है। भौतिक या डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कट ऑफ तारीख को या तो केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) अर्थात https://www.evotingindia.com की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से (''रिमोट ई—वोटिंग'') या बैलट पेपर के माध्यम से एजीएम के स्थल पर अपना वोट डाल सकते हैं;

बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

help desk. evoting @cdslindia.com, be et al @beetal financial.com

(vii) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com के 'डाउनलोड' अनुभाग

कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य

दिनांकः २७ अगस्त, २०२४ कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता. संख्याः ए५७७४४ स्थानः मुरादनगर